

7/1/2022.

GCCO/II/39/OTH/152/2021-CCAESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-CHENNAI

7/2022

	<p>मान और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE केन्द्रीय मान और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बंचल : तमिलनाडु एवं पुदुचेरी CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE ZONE : TAMILNADU & PUDUCHERRY जी एस टी भवन, सं. 26/1, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई - 600 034 GST BHAWAN, No. 26/1, MAHATHMA GANDHI ROAD, CHENNAI - 600 034 ई - मेल / E-mail: cca.estt.section@gmail.com / ccaestt-prcco@gov.in दूरभाष / Ph. No.: 044-28331011 फेक्स / Fax No.: 044-28331015</p>	 <p>आजादी का अमृत महोत्सव</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To

Shri Sanjay Kumar Gupta,
5, Garstin Place,
Ground Floor,
Kolkata - 700001.

Gentleman,

Sub: Information under Right to Information Act, 2005-Reg.

Please refer to your RTI application dated 08.04.2022 filed under RTI Act, 2005 and received in this office on 18.04.2022.

2. It is seen that from the said RTI Application that you have affixed a Court Fee stamp of value Rs. 10/- as RTI Application Fee. Since Court fee is not the approved mode of payment for filing an application under the RTI Act, 2005, your application is returned herewith. In this regard, you are requested to refer to the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 as amended by the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006 (copy enclosed) regarding the mode of payment for filing an application under RTI Act, 2005.

3. It is informed that it is not possible to ascertain the name of the taxpayer registered with the GST Department only with the address provided in your RTI Application without the PAN number of the taxpayer. Taxpayers are being administered by both the State and Central Authorities. In the absence of PAN/GSTIN No. it cannot be ascertained whether the taxpayer registered in the address mentioned above is registered with State or Central Authorities. Further, the information sought contains third-party information.

4. However, you are requested to file the RTI Application again with the correct mode of payment and also furnish details such as PAN No./GSTIN No. if available before Chennai North Commissionerate under whose jurisdiction the address mentioned in your RTI Application falls.

Yours Faithfully,

Encl. as above

O/c.

(RAJNI MENON)
ASSISTANT COMMISSIONER
Central Public Information Officer

Signed by Rajni S Menon
Date: 19-04-2022 14:37:44

